

August 05, 2025

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Symbol: JUBLCPL

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 544355

Sub: Copy of Newspaper Advertisements- Notice of 17th Annual General Meeting ("AGM Notice") and E-Voting.

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisements published in MINT (All Editions - English language) and HINDUSTAN (Hindi language), today i.e. August 05, 2025 which includes the following information:

- a) Completion of email dissemination on August 04, 2025 of the Notice of 17th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2024-25 to the members whose email IDs are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent/ Depository Participant; and
- b) E-Voting information relating to the 17th Annual General Meeting of the Company.

The copies of newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.jacpl.co.in .

This is for your information and records.

Thanking you,

For Jubilant Agri and Consumer Products Limited

Hariom Pandey Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a







www.dlf.in



IUBILANT

EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

SI.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
No.	, undedicate	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited) (refer note 2)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	
1.	Total income	2,980.88	3,347.77	1,729.82	8,995.89	
2.	Net profit for the period/ year [before tax, exceptional items and share of profit in associates and joint ventures (net)]	515.30	1,052.67	457.62	2,563.01	
3.	Net profit for the period/ year [before tax, share of profit in associates and joint ventures (net) and after exceptional items]	515.30	1,052.67	457.62	2,260.62	
4.	Net profit for the period/ year [after tax, share of profit in associates and joint ventures (net)]	762.67	1,282.20	644.67	4,366.82	
5.	Total comprehensive income for the period/ year	766.02	1,268.15	646.37	4,356.26	
6.	Paid up equity share capital (face value of ₹ 2/- per share)	495.06	495.06	495.06	495.06	
7.	Other equity	-	-	-	42,055.16	
8.	Earnings Per Share (face value of ₹2/- per share) (not annualised)					
i).	Basic (₹)	3.08	5.18	2.61	17.64	
ii).	Diluted (₹)	3.08	5.18	2.61	17.64	

- 1. The above consolidated financial results of DLF Limited ("the Company"), its subsidiaries, partnership firms (together referred as "the Group") and its joint ventures, joint operations and associates have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 04 August 2025. he Statutory Auditors have carried out Limited Review of above consolidated financial results of the Group.
- 2. The figures for the quarter ended 31 March 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year up to 31 March 2025 and the unaudited published year-to-date figures up to 31 December 2024, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subject to limited review by the Statutory Auditors
- These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. The said consolidated financial results represent the results of DLF Limited ("the Company"), its subsidiaries, partnership firms (together referred as "the Group"), its joint operations and its share in the results of joint ventures and associates which have been prepared in accordance with the Ind AS-110 - 'Consolidated Financial Statement' and Ind AS-28 - 'Investment in Associates and Joint Ventures'
- 4. The standalone financial results of the Company for the guarter ended 30 June 2025 are available on the Company's Website at https://www.dlf.in/investor.php.

Particulars		Quarter Ended		
	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited) (refer note 2)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
Total income	610.02	3,056.68	602.91	6,001.40
Profit before exceptional items and tax for the period/year	49.44	1,711.99	4.51	2,377.42
Profit before tax for the period/year	49.44	1,711.99	4.51	2,075.03
Net profit for the period/ year	40.26	1,549.94	3.79	1,580.00
Other comprehensive income for the period/ year	(0.11)	2.47	0.03	(0.46)
Total comprehensive income for the period/ year	40.15	1,552.41	3.82	1,579.54
Paid up equity share capital (face value of ₹ 2/- per share)	495.06	495.06	495.06	495.06
Other equity	-	-	-	28,911.64
Earnings per share (face value of ₹ 2/- per s	share) (not annualised	d)		
i). Basic (₹)	0.16	6.26	0.02	6.38
ii). Diluted (₹)	0.16	6.26	0.02	6.38

The above is an extract of the detailed format of quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange's websites at www.nseindia.com and on Company's website at https://www.dlf.in/investor.php and can also be accessed by scanning the below QR Code



On behalf of the Board of Directors

Place: Gurugram **Devinder Singh** Date: 04 August 2025 Managing Director

Ashok Kumar Tyagi Managing Director

DLF Limited

Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, DLF City, Phase I, Gurugram - 122 002 (Haryana) India CIN – L70101HR1963PLC002484, Website: www.dlf.in, Tel.: +91-124-4334200, E-mail: investor-relations@dlf.in

कार्यालय- नगर निगम, ऋषिकेश

पत्रांक 2408/(11)स्वा0अनु0 / 2024-25 **ई-निविदा सूचना**

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत 40 वार्डो से डोर टू डोर कुडा एकत्रिकरण[े]हेतु इच्छुक निविदादाताओं∕फर्मो⁄सेवाप्रदाताओं आदि से **दिनांक** 05.08.2025 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 22.08.2025 की सांय 02:00 बजे तक दोहरी निविद प्रणाली (तकनीकी एंव वित्तीय) अन्तर्गत ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता, फर्म/सेवाप्रदाता उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। निविदा की शर्तें एंव अन्य जानकारी www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम ऋषिकेश की वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के किसी भी कार्यीदेवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांच 05:00 बजे तक स्वास्थ्य अनुभाग नगर निगम ऋषिकेश से सम्पर्क किया जा सकता है।

> सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश

नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश

MUNJAL SHOWA

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934 Registered Office & Works: Plot No. 9-11, Maruti Industrial Area

Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana) | Tel.:+91-124-4783000 | Fax:+91-124-2341359 Email: pgupta@munjalshowa.net | Website: www.munjalshowa.ne

EXTRACT OF THE STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Lakhs, except per equity share data)

	(
S.		3 months ended	Year ended	3 months ended	
No.	Particulars	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1.	Total Income from operations	28,604.06	1,25,044.73	31,075.30	
2.	Net Profit for the period before tax and exceptional items	988.13	3,516.45	1,343.12	
3.	Net Profit for the period before tax and after exceptional items	988.13	3,516.45	1,343.12	
4.	Net Profit for the period after tax and after exceptional items	828.17	2,886.98	1,191.89	
5.	Total comprehensive income for the period (after tax)	811.95	2,822.09	1,197.98	
6.	Equity Share Capital	799.93	799.93	799.93	
7.	Reserves excluding revaluation reserve as on March 31, 2025		66,647.41		
8.	Earnings Per Share (after extraordinary item/s) (of Rs. 2/- each)	2.00	2.00	2.00	
	Basic: (In rupees)	2.07	7.22	2.98	
	Diluted: (In rupees)	2.07	7.22	2.98	
NI - 4 -	Nata.				

Place : Gurugram

Dated : August 04, 2025

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.munjalshowa.net



For and on behalf of the Board (Yogesh Chander Munjal)

Chairman & Managing Director **DIN 00003491**

Jubilant Agri and Consumer Products Limited

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India, Phone: +91-5924-267437 Corporate Office: Chimes 142, 3rd floor, Sector 44, District Gurugram - 122003,

Haryana, India. **Ph.**: +91-124-2577229 E-mail: investorsjacpl@jubl.com; Website: www.jacpl.co.in

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Jubilant Agri and

Members who hold shares of the Company in dematerialized form and have not yet registered their email addresses with the Company are requested to contact their respective Depository Participant (DP) and

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') and the Secretarial Standards of the General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing electronic voting ('e-Voting') facility to all the Members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, all the items of business set forth in the Notice of AGM may be transacted through e-Voting facility provided by National Securities Depository Limited ('NSDL') either by a)

The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Tuesday, 19th August, 2025. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company

Remote e-voting facility will be available during the following period:

From 9:00 A.M. (IST) on Saturday, 23rd August 2025 Commencement of remote e-voting End of remote e-voting Till 5:00 P.M. (IST) on Monday, 25th August 2025

No remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Tuesday, 19th August, 2025, may obtain the User ID and Password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.com or to the Company at investorsjacpl@jubl.com or to RTA at rta@alankit.com). However, if any person is already registered with

The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not cast

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend and participate in the

VII. The Notice of AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website at link

For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com

The Board of Directors have appointed Mr. Deepak Kukreja FCS No. 4140, C.P. No.: 8265), Partner or failing him Ms. Monika Kohli (FCS No. 4936, C.P. No.: 5480), Partner of M/s. DMK Associates, Company Secretaries (FRN:P2006DE003100), New Delhi, as 'Scrutinizer' to scrutinize the process of e-voting during the AGM and remote e-voting held before the AGM in a fair and transparent manner.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of AGM shall be declared within 2 working days of conclusion of the AGM. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.jacpl.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com, mmediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges.

For Jubilant Agri and Consumer Products Limited

Date : August 04, 2025 Place: Gurugram

INDUS TOWERS LIMITED

CIN: L64201HR2006PLC073821

Regd. Office: Building No. 10, Tower A, 4" Floor, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana

Tel: +91-124-4296766, Fax: +91-124-4289333

Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com

INFORMATION REGARDING 19th ANNUAL GENERAL

MEETING OF INDUS TOWERS LIMITED

('Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other

Audio Visual Means('OAVM') on Friday, August 29, 2025 at

3:30 P.M. (IST) to transact the businesses as are set forth in the Notice

of AGM dated Wednesday, July 30, 2025 ('Notice') in compliance with

the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made

thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with applicable

circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI.

Integrated Annual Report inter-alia covering Financial Statements

2024-25 ('Integrated Report') will be sent through electronic mode to

those Members whose email addresses are registered with the

Company/ Depository Participants (DPs) as on Friday, August 01.

2025 and a physical communication will be sent to the Members

whose email addresses are not updated in the records, which shall

contain the exact link and QR code of the Company's website to

access the Notice, Integrated Report and other relevant documents.

The hard copy of the full Integrated Report will be sent to those

shareholders who will request for the same. The Notice and Integrated

Report will also be available on the website of the Company at

www.industowers.com, on the website of National Securities

Depository Limited ('NSDL') at <u>www.evoting.nsdl.com</u> and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock

Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and www.nseindia.com respectively. Further, the Members can join and

participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The nstructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice. Members attending AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under

The Members holding shares in physical form who have not registered their email address with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, i.e. through submitting the requisite Form ISR-1 along with the

supporting documents. Form ISR-1 is available at https://ris.Kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx and www.industowers.com and detailed FAQs on the same are available at https://ris.Kfintech.com/faq.html. The Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their email

The Company will provide remote e-voting facility to all the

Members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice.

Additionally, the Company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e- voting/ e-voting at the AGM, including

the manner in which Members holding shares in physical form or who

have not registered their email addresses can cast their vote through

of all the Members of the Company in compliance with the applicable

This advertisement is being issued for the information and benefit

For Indus Towers Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Samridhi Rodhe

remote e-voting/e-voting at the AGM, shall be provided in the Notice.

Section 103 of the Companies Act, 2013.

addresses with their relevant DPs.

circulars.

Place: Gurugram

Date: August 04, 2025

In accordance with the applicable circulars, the Notice and

The 19th Annual General Meeting ('AGM') of Indus Towers Limited

indus

(CIN: L52100UP2008PLC035862)

NOTICE OF 17[™] ANNUAL GENERAL MEETING OF JUBILANT AGRI AND **CONSUMER PRODUCTS LIMITED AND E-VOTING INFORMATION**

Consumer Products Limited will be held on Tuesday, August 26, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business(es) as set forth in the Notice convening 17th AGM ("AGM Notice") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and circular issued by Securities Exchange Board of India vide circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CFDPoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular") and other applicable circulars and notifications issued (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time. The members may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM, along with the Annual Report for

the Financial Year 2024-25 has sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants or Alankit Assignments Limited, Registrar and Transfer Agents ('RTA') of the Company. The aforesaid documents are also be available on the website of the Company at www.jacpl.co.in and on the websites of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). In addition, pursuant to Regulation 36(1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has also sent letters providing the web link, including the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered. The Company shall send the physical copy of Annual Report for the Financial Year 2024-25 to those Members who request the same at investorsiacpl@iubl.com by mentioning their Folio No. /DP ID and Client ID.

complete the email registration process as advised by the DP.

remote e-voting prior to the AGM or b) e-voting during the AGM. Members are further informed that:

as on the Cut-off date;

 $member, the \, member \, shall \, not \, be \, allowed \, to \, change \, it \, subsequently;$

NSDL for remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 022 - 4886 7000;

their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights;

AGM through VC/ OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again; and

www.jacpl.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Hariom Pandey Company Secretary Membership No: F9349

E-TENDER NOTICE

TENDER NOTICE No.: NGP/L 2025/T/15R05. Date: 31.07.2025 Gr. Divisional Electrical Enginee General) Central Railway, 2nd Flooi DRM Building, Kingsway Road Nagpur - 440001 for and on behalf of President of India invites F-Tender through website www.ireps.gov.in for the following work. Name of work: Electrical work for SCH-A-Augmentation, up gradation and modification of power supply arrangement at NSG-4, NSG-5 & NSG-6 category stations. And **Sch-B**-Replacement of conventional fans with BLDC fans and other energy efficient equipments at station and service ouildings over Nagpur division

Tender cost of work: Rs .35.80.052.43 Rupees One cror nirty Five lakh Eighty thousand fift two and Fourty three paisa only. Bid Security: Rs. 2,17,900/-. Cost of tender form: Rs. Nil. Completion **Period**: 12 months. The offer will remain open for 60 days. **Date & time** for submission of tender: 29.08.2025 up to 11:00 Hrs. **Date &** time of opening of tender: 29.08.2025 up to 11:15 Hrs. Web site particulars: www.ireps.gov.in. Detailed tender notice is placed on notice board in the office of Sr. DEE G) NGP 2nd floor DRM office building lagpur. Further any other correction and corrigendum, if any, to be seen o

Sr. Divisional Electrical Engine (Genl), Central Railway, Nagpur K/12/150

ongc







Regd. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 CIN No L74899DL1993GOI054155 | Website: www.ongcindia.com | Email: secretariat@ongc

HIRING OF EXPERIENCED PROFESSIONALS FOR FIXED TERM ENGAGEMENT IN ONGC Advt. No. 3/2025 (R&P)

ONGC—A 'Maharatna' Public Sector Enterprise and India's Largest Oil & Natural Gas Company—is advancing its footprint in LNG/Ethane value chains through ambitious strategic initiatives. Central to our business, where exploration meets execution, marine operations anchor ONGC's offshore strength—powering efficiency and reliability across the energy value chain.

We invite promising and experienced professionals to join on a Fixed Term Engagement basis for five years for the following posts:

SI No	Post	Minimum Qualification	Minimum Experience	
1	Senior Vice	Bachelor's	25 years of relevant experience	
	President	degree in	in Oil and Gas sector in a	
	LNG/	Engineering/	Company of repute, having	
	Ethane	Technology	minimum annual turnover of	
	(Sourcing &		Rs. 5000 Crore in last two years,	
	Distribution)		out of which at least 12 years	
			of experience in LNG/Ethane	
			sourcing & distribution.	
2.	Senior	Certificate of	Minimum 20 years of relevant	
	Vice	Competency	experience in Marine	
	President –	(Unlimited) as	Operations, out of which at	
	Marine	Master of a	least 05 years' experience as	
	Operations	Foreign-Going	Chief Officer/Master on a	
		Ship from	Foreign Going Vessel.	
		Govt. of India		

Interested & eligible candidates need to register on our website www.ongcindia.com between the period 04.08.2025 to 18.08.2025. Visit our website www.ongcindia.com for detailed advertisement containing complete relevant information.

DGM(IE) I/c Corporate Recruitment, ONGC

S. E. RAILWAY - TENDER Fender Notice No.: e-Tender/2025/25, Date: 01.08.2025. For and on behalf of

President of India, the Divisional Railway Manager (Engg.), South Eastern Railway Charagpur-721301 invites e-tender for the following works before 15.00 hrs. or he date mentioned against items and will be opened at 15.30 hrs. SI.No.-1 Fender No.: E-KGP-South-40-2025. Description of work: Replacement of existing Bridge Slab by PSC Slab & other allied works (57 Nos. Bridges) under Missio 3000MT in Kharagpur-Lakshannath Road section under the jurisdiction of ADEN (South)/Kharagpur. **Tender Value:** ₹ 83,72,19,684.24. **Earnest Money:** ₹ 43,36,100. SI.No.-2. Tender No.: E-KGP-South-41-2025. Description of work: Replacemen of existing Bridge Slab by PSC Slab & other allied works (49 Nos. Bridges) under Mission 3000MT in Lakshannath Road-Nuagan Mayurbhanj Road section under the jurisdiction of ADEN (South)/Kharagpur. **Tender Value:** ₹ 80,96,53,756.14 Earnest Money: ₹ 41,98,300. Sl.No.-3. Tender No.: E-KGP-South-42-2025. Description of work: Replacement of existing Bridge Slab by PSC Slab & othe allied works (74 Nos. Bridges) under Mission 3000MT in Nuagan Mayurbhanj Road Bhadrak section under the jurisdiction of ADEN/Balasore. Tender Value ₹ 78,33,87,135.64. Earnest Money: ₹ 40,66,900. SI.No.-4. <u>Tender No.: E-KGP</u>-South-43-2025. Description of work: Construction of 3.1 Mtr. wide FOB at Bhanjpu VZR) Station under the jurisdiction of ADEN/Balasore. Tender Value ₹ 2,19,30,688.86. Earnest Money: ₹ 2,59,700. Sl.No.-5. Tender No.: E-KGP-South-44-2025. Description of work: (i) Construction of 22 Nos. RCC box (2.5mt) 2.5mtr) with pushing technique along with provision of height gauge and drain n Kharagpur-Bhadrak section, on routes with speed 130kmph and above, in onnection with safety fencing work urider the jurisdiction of ADEN(South)/Kharagpu ii) Replacement of existing piped bridges (10 Nos.) by pushing technique ir Kharagpur-Rupsa section of Kharagpur division under ADEN (South)/Kharagpu (2nd call). Tender Value: ₹ 43,19,65,537.67. Earnest Money: ₹ 23,09,800. Tender Document Cost: ₹ 0 (for Sl.No. 1 to 5 each). Date of Opening: 21.08.2025 (for Sl.No. 1 to 5 each). Completion Period of the work: 36 months (for Sl.No. 1 to B each), 12 months (for SI.No. 4) & 24 months (for SI.No. 5). Bidding start date From 07.08.2025 and up to 15.00 hrs. on 21.08.2025 (for Sl.No. 1 to 5 each) nterested tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full details. descriptions/specification of the tenders and submit their bids online. In no case nanual tender for these works will be accepted. N.B.: Prospective bidders may regularly visit www.ireps.gov.in to participate in all tenders.

GOVERNMENT OF WEST BENGA KMDA TENDER NOTICE

NIT-02 (3rd Call)/25-26
Online e-Tender is invited by The
Superintending Engineer, North Circle,
GAP Wing, W&S Sector, KMDA, Block-D. 1st Floor, Unnavan Bhawan, Kolkat 700091, from reliable, resourceful, bo fide and experienced firms / companies dividual contractors / joint ventures, f e work, Name of Work, Estima mount, Earnest Money, Time ompletion, Pollution Abatement erage Project including construction wage Treatment Plant(STP), Ma nping Station (MPS), Sewage Pumpin tion (SPS), Sewer Network and allie orks at added area of Kalyani Municip own for Ward nos.1, 2, 3 (Partially) & 1 Phase 1).(3rd Call)., Estimated Ame erved with TIA, Rs.10,00,000/- throu nline as per the System, 24 Montl followed by 03 months' Trial Run and years' Operation & Maintenance., Las date & time of online Bid submission 06.09.2025 Time:15:00 hrs., for detail ontact the above office or visit bo www.kmda.wb.gov.in

www.wbtenders.gov.in

EMU/RT-4, dated 31.07.2025. Oper ender for E-Tendering in single packet system is invited by Sr. Divisiona Electrical Engineer (EMU), Easteri Railway 4th Floor Rail Yatri Niwas near Howrah station, Howrah-711101 for the following work: Name of the Work EMU rake cleaning at Tarakeswar EMU Stabling Yard for 02 years (730 Days) on nanpower basis. Tender Value ₹31,04,614.81. Earnest Money (E.M.D.) ₹ 62.100/-. Cost of tender documents 0.00. Completion Period: 730 days Date of Closing: 21.08.2025 at 12.00 hrs. The tender documents and othe details can be obtained from the website www.ireps.gov.in The bidding for the tender is to be submitted through e tendering on above website. Manua offers are not allowed against this tender and any manual offer if received shall not be accepted and will be summarily (HWH-226/2025-26) Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

Follow us at : 🗶 @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HT TWTW

Take a cue from the clues

Have fun with facts on Sundays



A quiz on the week's development.







ऑपरेशन महादेव में मारे जा चुके हैं तीन आतंकी, इनमें से कोई भी नहीं था स्थानीय

बायोमीद्रिक रिकॉर्ड ने की आतंकियों के पाकिस्तानी होने की हुई पुष्टि

श्रीनगर, एजेंसी। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी नागरिक होने की पुष्टि की है। इनकी पहचान पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों और बायोमीटिक डाटा के आधार पर की गई है।

पहलगाम हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के ये आतंकी 28 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम के जंगल में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड में मारे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि इन आतंकवादियों में कोई स्थानीय नागरिक

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय डाटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (एनएडीआरए) के बायोमीटिक रिकॉर्ड. मतदाता पहचान पत्र और डिजिटल सैटेलाइट फोन डेटा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए निर्णायक सबूतों में से हैं।

उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के बाद की जांच में बैलिस्टिक हथियार से कारतूस का मिलान और हिरासत में लिए गए दो कश्मीरी मददगारों के बयान से इनकी पहलगाम हमले में संलिप्तता की पुष्टि की गई।एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार हुआ



कराची में निर्मित चॉकलेट के रैपर मिले थे

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में निर्मित सामान जैसे कैंडीलैंड और चोकोमैक्स

चॉकलेट (दोनों कराची में निर्मित) के रैपर भी जब्त किए गए थे। साथ ही पहलगाम में

मिली एक फटी हुई शर्ट पर मौजूद खून से लिए गए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइल

मारे गए तीनों आतंकवादियों के शवों से लिए गए डीएनए से पूरी तरह मेल खाते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता का एक और महत्वपूर्ण

सबत पाकिस्तान के अंदर स्थित कमांड और कंटोल लिंक था। साथ ही बरामद फोन

से आवाज के नमूने उनके पहले के इंटरसेप्टेड कॉल से मेल खाते हैं।

दस्तावेजों के आधार पर आतंकियों की

उधर, पीआईबी की ओर से बयान जारी

कर बताया गया है कि पहलगाम हमलावरों

पाकिस्तानी राष्ट्रीयता साबित की गई है।

मृटभेड़ के दौरान तीनों आतंकियों को किया था ढेर. आतंकवाद विरोधी अभियान जारी।

कुलगाम में सोमवार को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान

प्रसारित की जा रही है और इसे सेना के

हवाले से बताया जा रहा है। जबकि भारतीय

सशस्त्र बलों के किसी भी अधिकृत मीडिया

हैंडल ने ऐसा कोई दस्तावेज तैयार या जारी

तलाशी अभियान जारी

श्रीनगर । कलगाम में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सुरक्षाबल ड्रोन और हेलीकॉप्टरों सहित अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर जिले के अखल में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उधर, कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ, सेना और जेकेपी ने अभियान चलाकर दो चीनी ग्रेनेड, गोला–बारूद के साथ एक चीनी पिस्तौल, एक रेडियो सेट और आईईडी बनाने की किताब बरामद की।

जेब में मिले दस्तावेज

अधिकारियों ने बताया कि मृठभेड़ के दौरान मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट्ट, अबू हमजा उर्फ अफगान और यासिर उर्फ जिब्रान को सुरक्षाबलों ने ढेर किया था। उन्होंने बताया कि हथियारों के साथ सरक्षाबलों ने शाह और हमजा की जेबों से पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी दस्तावेज बरामद किए थे।

जनसंपर्क कार्यालयों और मनोनीत प्रवक्ताओं द्वारा इस प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है। यह रिपोर्ट खुले स्रोतों से एकत्रित मुठभेड़ के बाद के निष्कर्षों का संकलन

गृह मंत्री से मिले एनएसए, खुफिया ब्यूरोप्रमुख

नई दिल्ली, एजेंसी। अनच्छेद 370 को रद करने की छठी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर सोमवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि उन्होंने देश की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका ने सोमवार को संसद भवन परिसर स्थित उनके कक्ष में गृह मंत्री से मुलाकात की। बैठक का विवरण पता नहीं चल पाया है। समझा जाता है कि उन्होंने देश की मौजूदा सुरक्षा



एसआईआर बड़ा मुद्दा, संसद में चर्चा जरूरी : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा करार देते हुए संसद में चर्चा की वकालत की है। इस मुद्दे पर विपक्ष के रुख को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। संसद भवन परिसर में सोमवार को मीडिया से प्रियंका ने कहा, एआईआर एक बड़ा मद्दा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मतदाता सचियों में यह सब किया जा रहा है तो विपक्ष इस विषय को क्यों नहीं उठाए।

फिलीपींसहिंद-प्रशांतक्षेत्र में भारत का रक्षा सहयोगी

कृटनीति

🔳 मदन जैडा

नई दिल्ली।हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढती चुनौतियों से निपटने के लिए फिलीपींस की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति भारत के लिए महत्वपर्ण है। भारत रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत कर रहा है।

फिलीपींस एक महत्वपूर्ण रक्षा खरीदार के रूप में भी उभरा है। भारत ने उसे ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं।फिलीपींस और भी रक्षा साजो-समान भारत से खरीदने का इच्छक है। इस कडी में सोमवार से शुरू हुई फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-फिलीपींस के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं।दोनों अपने राजनियक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। फिलीपींस में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग

द्विपक्षीय व्यापार 3.5 अरब डॉलर तक पहुंचा भारत-फिलीपींस के

द्विपक्षीय व्यापार ३.५ अरब डॉलर तक पहंच गया । फिलीपींस में आईटी आईटीईएस स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, बुनियादी ढांचा, एफएमसीजी रसायन, ऑटोमोबाइल, कृषि आदि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की उल्लेखनीय

बीच वर्ष 2023-24 में

70,000 होने का अनुमान है, जे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।इसे और मजबूती देने के लिए फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का भी ऐलान किया है 1992 में लुक ईस्ट की नीति के साथ ही भारत की आसियान के साथ साझेदारी मजबृत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 2017 मे

आसियान भारत शिखर सम्मेलन मे

हिस्सा लेने फिलीपींस गए थे।

उपस्थिति है।

राहुल देश को कमजोर कर रहे:भाजपा हर देशभक्त जवाब मांग रहा:कांग्रेस



नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भाजपा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बहुत गंभीर बताते हुए कहा कि इसके साथ ही राहुल गांधी की विश्वसनीयता शून्य हो गई है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सवाल किया

कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए संविधान के तहत शपथ ली है, क्या वे हमारे देश की संप्रभुता को नष्ट कर रहे हैं ? क्या वह उन देशों की मदद कर रहे हैं, जो हमारे देश के दश्मन हैं ?

भाटिया ने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारत को कमजोर करने और चीन को मजबूत करने की कसम खा रखी है। राहुल को चीन गुरु करार देते। हए भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस

नई दिल्ली, विसं। सुप्रीम कोर्ट ने

सोमवार को सेना के कर्नल और उनके

बेटे पर पंजाब पुलिस अफसरों द्वारा

हमला मामले की जांच सीबीआई को

सौंपने के खिलाफ दायर याचिका

सोमवार को खारिज कर दी। अदालत

ने कहा कि सेना का सम्मान करें, उनकी

वजह से ही हम और आप चैन की नींद

सेना का सम्मान करें.उन्हीं

के चलते चैन से सोते हैं: कोर्ट

चीन और पाकिस्तान के लिए प्रेम : गौरव भाटिया



गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में राहुल के किसी दस्तावेज पर कथित तौर पर दस्तखत करने की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि कांग्रेस नेता ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टी-से-पार्टी के स्तर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे भारत के लोगों को नहीं बताते कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस की पार्टी-से-पार्टी स्तर पर समझौता ज्ञापन में क्या था। उन्होंने कहा,

बलों से नफरत करते हैं तथा विदेशी ताकतें उन्हें रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रही हैं। भाजपा ने शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राहल लगातार बचकानी, बलों का मनोबल गिरा रहे हैं। गैर-जिम्मेदार और भारत विरोधी टिप्पणियां करते आए हैं, जबकि अतीत

लगता है राहुल की रगों में चीन और पाकिस्तान के लिए प्रेम है।

के लिए उनसे नाखशी जाहिर की है। भाटिया ने आरोप लगाया इसलिए

🔳 कर्नल और उनके बेटे

पीटने का मामला

को पुलिस अफसरों द्वारा

जस्टिस संजय कुमार और सतीश

चंद्रशर्मा की पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों

पर विचार करने के बाद हमारा मानना है

कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के

आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है।

में विभिन्न अदालतों ने ऐसी टिप्पणियों

हमारे सैनिकों को पीटा. चाहे डोकलाम में हो या गलवान घाटी में, जबकि हर भारतीय अपने बहादुर सैनिकों के साथ खडा है।राहल भारत के बहादर सशस्त्र

उधर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिज् लोकसभा में राहुल गांधी पर 2022 में अरुणाचल के यांग्सी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा।

चिटफंड घोटाले का

आरोपी गिरफ्तार

नर्इ दिल्ली. विसं।सीबीआई ने चिटफंड

घोटाला मामले में भगोड़े आरोपी

शिवकमार को गिरफ्तार कर लिया है।वह

राइटमैक्स टेक्नोट्रेड इंटरनेशनल

लिमिटेड का निदेशक था।शिवकुमार पर

वर्ष 2014 में दर्ज एक मामले में

धोखाधडी, आपराधिक षड्यंत्र और

प्राइज चिट्स एवं मनी सर्कलेशन स्कीम्स

(प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के

उल्लंघन का आरोप है। वर्ष 2019 में उसे

भगोडा अपराधी घोषित कर दिया गया।

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2020 की गलवान की घटना के बाद से हर देशभक्त भारतीय चीन मामले पर जवाब मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने 'डीडीएलजे' वाली अपनी नीति से सच्चाई को छिपाने की कोशिश की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने

आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार 1962 के बाद से भारत को मिले सबसे बडे क्षेत्रीय झटके के लिए जिम्मेदार है। सरकार अपनी गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण चीन के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद रमेश ने सत्तारूढ़ दल से सवाल किया, प्रधानमंत्री ने 19 जून

क्या देपसांग चीनी नियंत्रण में आ गया : जयराम रमेश जयराम ने सवाल किया, क्या २०२० में व्यापक रूप से रिपोर्ट



(देपसांग का 900 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल)चीनी नियंत्रण में आ गया है? क्या लेह के एसपी ने शोधपत्र पेश नहीं किया था, जिसमें कहा था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के 65 गश्ती बिंदुओं में 26 तक पहुंच खो दी है? उन्होंने पूछा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थित पर वापस जाना चाहते हैं।

नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र

क्या २१ अक्टूबर, २०२४ का वापसी समझौता हमें यथास्थिति की पुष्टि करता है? हमारे सैनिकों के वीरतापूर्वक बलिदान बढ़ रहा है। दूरसंचार, औषधि और देने के केवल चार दिन बाद, 'न कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र चीनी हमारी सीमा में घुसा है, न ही कोई घुसा आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं ?

चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर क्यों पहुंचाः कांग्रेस नेता यह भी कहा, क्या यह सच नहीं है कि चीन से इलेक्टॉनिक्स, इलेक्टिक बैटरी और

हआहै' कहकर चीन को क्लीन चिट

एयर इंडिया के विमान में कॉकरोच मिले, माफी मांगी

श्री गणेश मेला परिषद, (रजि०) चन्दौसी ।

बिजली विद्युत घर को तैयार करने के संबंध में । सर्व धारण को सचित किया जाता है कि श्री गणेश मेला परिषद

चन्दौसी द्वारा सर्व धर्म सम्भाव के लिये गणेश चतुर्थी का आयोजन दिनांक 25.08.2025 से 14.09.2025 तक

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयोजन किया जायेगा । जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम हेत निविदा आमंत्रित की जाती

है । निविदा दिनांक 08.08.2025 तक सार्य 5 बजे तक श्री गणेश मन्दिर परिसर. सीता रोड. चन्दौसी पर शील बंद

लिफाफे में भेजी जा सकती है । **क्रमांक** , **कार्य आदि का नाम (जो तैयार किया जाना है), अन्य विवरण** 1 ,मनोरंजन

के झूले आदि, २ . मेला क्षेत्र में स्टेज तैयार करना (अस्थायी), ३ . कोतवाली तैयार करना (अस्थायी), ४ . दुकानों

निर्माण एवं सजावट करना (अस्थायी) 5 . दो बिजली घर तैयार करना (अस्थायी) . 6 . फायर सर्विस हेत छोटा टीन

शेड (अस्थायी), 7 . मेलर कमेटी करे 12000 पास उपलब्ध कराना, 8 . गणेश मन्दिर के सामने महाकाल की झांकी

हेत लगभग 500 टीन एवं 1500 बल्ली और रस्सी उपलब्ध कराना और बनाना । **निविदा कर्ता द्वारा निम्न शर्तों को**

पुर्ण रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा । १. मेलों में झलों की स्थापना व टीन शेड लगाने का 3 वर्ष का अनुभव

अनिवार्य है। 2. जी0 एस0 टी0 रजिस्टेशन व निविदा कर्ता द्वारा निविदा का मेले के दौरान जी0एस0टी0 का भगतान

करना । ३. हैसियत प्रमाण पत्र । ४. प्रतिभूति राशि २०००००/– (दो लाख रूपये) का डी०डी० मेला कमेटी के नाम

से जमा कराना अनिवार्य है । ५ . निविदा एलॉट होने के उपरांत निविदा की 80 प्रतिशत राशि तत्काल मेला कमेटी के

बैंक खाते में जमा करानी होगी। 6 . मेला व झूले लगाने हेतु सभी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग की अनापत्ति प्राप्त

करना अनिवार्य होगा । ७ .अस्थायी निर्माण से सम्बन्धित कार्य दिनांक १० .०८ .२०२४ से २० .०८ .२०२४ तक पण

करना होगा । आई० एस० ओ० प्रमाण पत्र । ८ . यदि संबंधित द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी

सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही यादि किसी बात को लेकर मेला परिषद एवं संबंधित के मध्य विवाद

होता है तो उक्त विवाद के निर्धारण का अधिकार जनपद सम्भल स्थित न्यायालय को ही होगा । साल की

आई०टी०आर० ऑडिट । ९. इन्थ्योरेंश प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र । १०. उक्त सभी शर्तों का पालन करना

अनिवार्य है। शर्तों को किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मेला कमेटी को होगा। प्रकाशन का व्यय स्वयं श्री

गणेश मेला परिषद रजि० चन्दौसी द्वारा ही किया जायेगा । **मख्य सचिव – श्री गणेश मेला परिषद (रजि०), चन्दौसी**

की सैन फ्रांसिस्को-मुंबई उड़ान के यात्रियों ने विमान में कॉकरोच होने की शिकायत की। इसके बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह विमान की सफाई की गई।

एयरलाइन ने इस संबंध में व्यापक जांच कर असविधा के लिए माफी मांगी।जानकारी के अनुसार, यह उड़ान 'बोइंग 777' विमान से

दो यात्रियों ने शिकायत की, जिन्हें बाद में दूसरी सीटें दे दी गईं।

जबलपुरमें इंडिगो का टायर पंक्चर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में डुमना हवाई अड्डे पर सोमवार को इंडिगो विमान का एक टायर पंक्चर हो गया। दिल्ली से टायर मंगवाय जिससे उड़ान में चार घंटे की देरी हुई।

IUBILANT



कॉपोरेंट कार्यालयः चाइम्स 142, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, जिला गुरुग्राम -122003. हरियाणा. भारत. फोन: +91-124-2577229 ईमेलः investorsjacpl@jubl.com; वेबसाइटः www.jacpl.co.in

जुबिलैंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकार्र एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) और उसके तहत निर्मित नियमों के लागू प्रावधानों के साथ पठित

कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 19 सितंबर. 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 तथा भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ('**सेबी परिपत्र**') और जारी किए गए अन्य लाग परिपत्रों तथा वर्तमान में लाग और यथासमय संशोधित अधिसचनाओं (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पनः अधिनियमन सहित) के अनुपालन में 17वीं एजीएम बुलाने के नोटिस ('**एजीएम नोटिस**') में निर्धारित व्यवसाय(यों) को पूरा करने के लिए **जुबिलैंट** एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 17वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को पूर्वाद्व 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। सदस्य एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनसार, एजीएम की सचना, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस या अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड. कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jacpl.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजे हैं जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट का सटीक पाथ सहित वेब लिंक प्रदान किया गया है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजेगी, जो अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए investorsjacpl@jubl.com पर इसके लिए अनरोध करेंगे।

जिन सदस्यों के पास कंपनी के शेयर डीमैट रूप में हैं और जिन्होंने अभी तक कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ईमेल पंजीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम'), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (**'सूचीबद्धता विनियम**') के विनयम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों के सचिवीय मानकों (एसएस-२) के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('ई-वोटिंग') की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। तदनुसार, एजीएम की सचना में निर्धारित सभी कार्य मदों का लेनदेन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से, या तो (क) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या (ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा किया जा सकता है। सदस्यों को यह भी सचित किया जाता है कि:

I. ई-वोटिंग की कट-आफ तिथि मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है। वोटिंग अधिकारों की गणना कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मृल्य के आधार पर की जाएगी।

II. रिमोट ई-वोटिंग सविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को 9:00 बजे पर्वा. (भा.मा.स.) से ई-वोटिंग की अन्तिम तिथि सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक

उपर्युक्त तिथि और समय के बाद किसी भी प्रकार की रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनमति नहीं होगी:

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह एनएसडीएल को ${f evoting} @{f nsdl.com}$ पर या कंपनी को investorsjacpl@jubl.com पर या आरटीए को rta@alankit.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है या एनएसडीएल

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा ई-वोट डालने का अधिकार नहीं होगा; और

VII. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jacpl.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी

पूछताछ/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-Voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से evoting@nsdl.com पर या नंबरः 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं। . निदेशक मंडल ने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया और एजीएम से पहले आयोजित रिमोट ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच के लिए

मेसर्स डीएमके एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (FRN:P2006DE003100), नई दिल्ली के पार्टनर श्री दीपक कुकरेजा (एफसीएस संख्या 4140, सी.पी. संख्याः 8265) या उनकी अनुपस्थिति में सुश्री मोनिका कोहली (एफसीएस संख्या 4936, सी.पी. संख्याः 5480) को 'संवीक्षक' के रूप में नियुक्त वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम वार्षिक आम बैठक के समापन के दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किए जाएँगे।

घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.jacpl.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किए जाएँगे और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी जुबिलैंट एग्री एंड कंज्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए

हरिओम पांडे कंपनी सचिव

ट्रेन में इमरजेंसी कोटा एक दिन पहले

संवाददाता। माननीयों की अल्पावधि (यात्रा के दिन) में किसी भी ट्रेन में इमरजेंसी कोटा के तहत अनिवार्य रूप से बर्थ प्राप्त करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है।रेलवें के नए नियम के तहत उनको यात्रा के एक दिन पहले इमरजेंसी कोटा के तहत बर्थ पाने के लिए अनुरोध करना होगा। अधिकारी ने बताया कि आम

यात्रियों की सुविधा के लिए जून से ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट 24 घंटे पहले तैयार करने का नियम लाग किया गया है। इससे टिकट कन्फर्म नहीं होने की स्थिति में

2 बजे के बीच छूटती है तो आपातकालीन कोटे के लिए अनरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक जमा कर देना होगा।

शाम की ट्रेन के लिए शाम ४ बजे तक जमा करना होगा।

छुट्टियों के लिए अगर रविवार या लगातार छट्टियों पर कोटा जारी होना है, तो अनुरोध छुट्टियों से पहले के आखिरी कार्य दिवस पर जमा करना होगा।

स्वीकार नहीं

यात्रा के दिन किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं

आवंटन करने के नियम बदल रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों में

येहैंनएनियम

सुबह की ट्रेन के लिए अगर ट्रेन रात 12 बजे से दोपहर

अगर ट्रेन दोपहर 2:01 बजे से रात ११:५९ बजे के बीच छूटती है, तो अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले

उसी दिन के अनुरोध

यात्री को अन्य विकल्प चुनने में इमरजेंसी कोटा के तहत बर्थ सहूलियत होगी। इसके साथ ही

शिक्षक भर्ती में बिहार के लोगों को प्राथमिकताः नीतीश कुमार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।राज्य में शिक्षकों

बहाली में डोमिसाइल नीति लाग् होगी।नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नयी अगली व्यवस्था

नियक्ति (टीआरई-4) से ही लागू कर दी जाएगी। यही नहीं अगले वर्ष टीओरिई 5 के आयोजन के पहले एसटीईटी का भी आयोजन होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार

को ट्वीट कर दी। अपने एक्स पोस्ट पर नीतीश कुमार ने की नियुक्ति की गई है।

लिखा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लाग किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा।टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं।शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ.प्र. छळाँ तल, जवाहर भवन, लखनऊ लखनऊः दिनांक 04 अगस्त, 2025

यू.पी. नीट एम.डी.एस.-2025 के अन्तर्गत तृतीय चक्र की ऑनलाईन काउंसलिंग की समय-सारिणी

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एम०सी०सी०) नई दिल्ली द्वारा नीट एम०डी०एस० पाठ्यक्रम की काउंसलिंग हेत निर्गत समय सारिणी के क्रम में प्रदेश के राजकीय / निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों / विश्वविद्यालयों में संचालित एम०डी०एस० पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु तृतीय चक्र की ऑनलाईन काउंसलिंग की समय सारिणी निम्नवत है:-

जागलाङ्ग पर्राठसालग पर्रा समय सारिया गिमापर् हः—						
क्र.सं.	विवरण	तिथि	कुल दिवस			
1.	ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 06 अगस्त 2025 (अपराह्न 5:00 बजे) से	05 दिवस			
		दिनांक 11 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक				
2.	पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर	दिनांक ०६ अगस्त २०२५ (अपराह ५:०० बजे) से	05 दिवस			
	धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 11 अगस्त 2025 (अपराह्न 2:00 बजे) तक				
3.	मेरिट सूची घोषित करने की तिथि	दिनांक 11 अगस्त 2025	01 दिवस			
4.	ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की	दिनांक 11 अगस्त 2025 (अपराह्न 5:00 बजे) से	02 दिवस			
	तिथि	दिनांक 13 अगस्त 2025 (अपराह्न 5:00 बजे) तक				
5.	सीट आवंटन का परिणाम घोषित	दिनांक 14 अगस्त 2025	01 दिवस			
	करने की तिथि					
6.	आवंटन पत्र डाउनलोड करने	दिनांक 18 अगस्त 2025 से दिनांक 21 अगस्त 2025	04 दिवस			
	तथा प्रवेश लेने की तिथि					
• नीट एम०डी०एस०–2025 काउंसलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिए विभागीय						
वेबसाइट <u>https://upneet.gov.in</u> एवं <u>www.dgme.up.gov.in</u> पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।						
Help Line Numbers- 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700						
"	महानिदेशक					

दिनांक: 04 अगस्त, 2025

सदस्यता सं. : एफसीएस 9349